

// नोटिस //

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा, में स्वशासी समिति की पूर्व से निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर 150 एम.बी.बी.एस प्रवेश हेतु एम.सी.आई. Recognition letter के मापदण्ड अनुसार सीनियर रेसिडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

सीनियर रेसिडेन्ट SR (निश्चित वेतन रु. 49,000/-प्रतिमाह)


S.No.	Subject	ST	SC	OBC	Unreserved	Total
1.	T.B. Chest	---	---	---	01	01
2.	Dermatology	---	---	---	01	01
3.	Psychiatry	---	---	---	01	01
4.	Surgery	01	---	---	02	03
5.	Orthopedics	---	---	---	01	01
6.	Anesthesia	01	---	---	01	02
7.	Obst.& Gynecology	01	---	---	01	02
8.	Radio diagnosis	01	---	---	---	01
	Total	ST-4	---	---	UR-8	Total- 12

नोट:- आवेदन का प्रारूप शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी एवं विस्तृत विवरण शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की वेबसाइट www.gmcvidisha.org से प्राप्त की जा सकती है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक-इन इंटर्व्यू पदों की पूर्ति होने तक प्रत्येक माह के प्रत्येक शनिवार को, सीनियर रेसिडेन्ट का दोपहर 12:00 बजे से अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में आवेदन पत्र जमा किये जाकर प्रमाण पत्रों की स्कूटनी का कार्य आरम्भ होगा तथा उसी दिन साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-4-7/2010/1/55 दिनांक 25/8/2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसिडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बाण्ड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जायेगा कि वे बाण्ड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवायें देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में ग्रामीण / अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्तें लागू हो जायेगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

अवधि :- उक्त सभी पदों हेतु प्रथम नियुक्ति 01 वर्ष के लिये होगी, जिसका अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष हो सकता है। नियमानुसार 01 वर्ष पूर्ण होने पर दो दिन का अंतराल पश्चात अवधि में वृद्धि की जावेगी साथ ही विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन एवं वर्क रिपोर्ट संतोषजनक पाये जाने पर वृद्धि की जावेगी।

आरक्षित वर्ग के चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने पर सीटें अ.ज.जा.(S.T.)/अ.जा.(S.C.)/अ.पि.व. (O.B.C.) एवं अनारक्षित (UR) श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेंगी।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध
चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, विदिशा

चौक-इन-इन्टरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें

नोट :-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
2. आवश्यकतानुसार पदों की शिकित्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्त पदों की संख्या की स्थिति समय समय पर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जावेगी।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है।
4. सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं, तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी। उक्त परिस्थिति में शिकित्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।

शर्तें :- यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी।


1. अवधि :- सीनियर रेसीडेन्ट की सेवा-अवधि (Tenure) 3 वर्ष की होगी। इनकी प्रथम 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुये अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जावेगी।
2. नियुक्ति का तरीका :- योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. सभी प्रोफेशनल युनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंको एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. शैक्षणिक योग्यता :- सीनियर रेसीडेन्ट हेतु- संबंधित विषय में एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस. जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले 5 वर्षों के अन्दर एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है, वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे। सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
4. यात्रा भत्ता :- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

अन्य शर्तें :-

1. जिन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकरिमक अवकाश की पात्रता होगी, तथा सप्ताह में 01 दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संयित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्ट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है, उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य मेडिकल काउंसिल अथवा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन करना अनिवार्य होगा।
8. जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग जिसमें आकरिमक चिकित्सा विभाग भी सम्मिलित है, में पदस्थ किया जा सकता है।
9. सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकता अनुसार अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।

10. साक्षात्कार में सम्मिलित होन वाले चिकित्सकों को स्कूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है. एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है।
11. सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अधिकतम आयु उम्र सीमा 40 वर्ष होगी।

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।


 अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं
 संबद्ध चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, विदिशा
 विदिशा

पत्र क्रमांक

/स्था./2018

विदिशा दिनांक:-.....

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागायुक्त, भोपाल एवं अध्यक्ष स्वशासी संस्था विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है, कि अपने कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस चस्पा करवाने का कष्ट करें।
5. समस्त विभागाध्यक्ष जी.एम.सी. भोपाल की ओर सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करवाने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, कमला नेहरू चिकित्सालय, हमीदिया चिकित्सालय, हॉस्टल ब्लॉक ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी।

//

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध
 चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, विदिशा

सीनियर रेसीडेन्ट के आवेदन पत्र को पारूप

प्रति,

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वशासी संस्था विदिशा

सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदित पद _____ विभाग _____

नोट:- सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

अभिप्रेत
कोटी

1. आवेदक का नाम _____

2. पुरुष/महिला _____

3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित) _____

4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित) _____

शहर का नाम _____ फोन नं. _____

मोबाइल नं. _____

5. स्थाई पता :- _____

शहर का नाम _____ फोन नं. _____

मोबाइल नं. _____

6. वर्तमान कार्यस्थल एवं पद _____

7. जन्म तिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें) _____

8. दिनांक 01/04/2018 को आवेदक की आयु _____ दिन _____ माह _____ वर्ष _____

9. वर्ग : सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग _____

(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

10. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक _____

(एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस.)

11. इन्टर्नशिप पूर्णता की दिनांक _____

12. एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. उत्तीर्ण करने की दिनांक _____

13. शैक्षणिक योग्यताएँ :- (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक / प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part-1						
4	MBBS Final Part-2						
5	MD / MS						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरें)

नोट :- प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. अनुभव का विवरण दें :-

क.	संस्था का नाम	एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त	कब से	कब तक	अवधि
1					
2					
3					

15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

स्थान

दिनांक

आवदेक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

निरन्तर.....

// प्रमाण पत्र //

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/ नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा। मुझ पर मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग स्वशासी समिति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के नियम एवं प्रावधान पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे।

आवदेक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर